

**बरामदगी अवैध शराब 180 पेटी कुल 8640 बोतल हरियाणा निर्मित व गिरफ्तारी 02 नफर अभियुक्त मय लोडर टेम्पो**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर महोदय के आदेश के क्रम में डी0जी0पी महोदय के अभियान के तहत अवैध शराब निष्कर्षण व बिक्री के रोकथाम के आदेश के अनुपालन में एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक नगर डा0 कौस्तुभ के निर्देशन में एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ श्री रत्नेश सिंह के पर्यवेक्षण में कार्यवाई के क्रम में मुखबीर की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह, मय हमराह व0उ0नि0 शोभनाथ यादव व चौकी प्रभारी पादरी बाजार उ0नि0 सुनील कुमार गुप्त व थाने की टीम, थाना शाहपुर मय फोर्स व स्वाट प्रभारी सादिक परवेज व मय टीम, के साथ मुखबीर की सूचना पर श्रीराम चौराहे के पास समय 11.05 बजे संयुक्त कार्यवाई के तहत थाना शाहपुर पुलिस व स्वाट प्रभारी सादिक परवेज टीम के साथ अभियुक्त राजेश कुमार निषाद पुत्र ईस्वर प्रसाद निवासी पासी टोला बरगदवा व निरंजन भारती पुत्र स्व0 जयप्रकास निवासी डोमीनगढ को अवैध शराब के साथ मय लोडर टेम्पो को पकड़ लिया तथा अभियुक्त के निशानदेही पर गोदाम में रखे हुए भारी मात्रा में शराब करीब 145 पेटी सुनील प्रजापति के गोदाम से बरामद किया गया। अवैध शराब कि बिक्री व तस्करी में पकड़े गये अभियुक्त के साथी मनोज गुप्ता पुत्र रामलाल निवासी मोहनलालपुर थाना तिवारीपुर मौके से भाग गया है। पकड़े गये अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि मैं यह शराब गैर प्रांत हरियाणा से मंगाकर बिहार प्रान्त तथा अन्य जनपदों में बेचते है और अच्छी कमाई करते है। यह धंधा हमलोग काफी दिनों से कर रहे है तथा गत्ते के ऊपर for sell Haryana के बजाय For sell in up अंकित कर देते है।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम-**

1. राजेश कुमार निषाद पुत्र ईस्वर प्रसाद निवासी पासी टोला बरगदवा मोहरीपुर थाना चिलुआताल गोरखपुर
2. निरंजन भारती पुत्र स्व0 जयप्रकास निवासी डोमीनगढ थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर

**फरार हुए अभियुक्तों का नाम पता-**

1. मनोज गुप्ता पुत्र रामलाल निवासी मोहनलालपुर थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर।
2. सुनील प्रजापति पुत्र अज्ञात निवासी चारफाटक मोहद्वीपुर थाना कैट जनपद गोरखपुर।

**पंजीकृत मुकदमें-**

1. मु0अ0सं0 1344/20 धारा 60/63/72 अबकारी अधिनियम व 419,420 भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

**बरामदगी माल**

- अवैध देशी शराब कुल 180 पेटी कुल 8640 बोतल।

**बरामद वाहनों का विवरण**

- 1- वाहन सं0 UP32-GN-2238 टेम्पो

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस पार्टी के अधि0/कर्म0 का नाम -**

- 1- प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह, थाना शाहपुर, गोरखपुर मय हमराह
- 2- व0उ0नि0 शोभनाथ यादव, थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर।
- 3- उ0नि0 सुनील कुमार गुप्ता, चौकी प्रभारी पादरी बाजार थाना शाहपुर गोरखपुर।
- 4- उ0नि0 सादिक परवेज प्रभारी स्वाट टीम मय हमराह